



ANURADHA SONDIK

11 Nov 1997

11:45 AM

Latehar

Model: Web-MyKundli

Order No: 121757501

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 11/11/1997
दिन _____: मंगलवार
जन्म समय _____: 11:45:00 घंटे
इष्ट _____: 14:12:12 घटी
स्थान _____: Latehar
देश _____: India

अक्षांश _____: 23:45:00 उत्तर
रेखांश _____: 84:30:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: 00:08:00 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 11:53:00 घंटे
वेलान्तर _____: 00:16:01 घंटे
साम्पातिक काल _____: 15:14:44 घंटे
सूर्योदय _____: 06:04:07 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:07:54 घंटे
दिनमान _____: 11:03:47 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: हेमन्त
सूर्य के अंश _____: 25:04:00 तुला
लग्न के अंश _____: 14:04:49 मकर

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मकर - शनि
राशि-स्वामी _____: मीन - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: उ०भाद्रपद - 2
नक्षत्र स्वामी _____: शनि
योग _____: हर्षण
करण _____: बव
गण _____: मनुष्य
योनि _____: गौ
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: जलचर
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: थ-थाकोरी
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - लौह
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: वृश्चिक

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1919	कार्तिक	20
पंजाबी	संवत : 2054	कार्तिक	26
बंगाली	सन् : 1404	कार्तिक	25
तमिल	संवत : 2054	आइपसी	26
केरल	कोल्लम : 1173	तुलम	26
नेपाली	संवत : 2054	कार्तिक	26
चैत्रादि	संवत : 2054	कार्तिक	शुक्ल 11
कार्तिकादि	संवत : 2054	कार्तिक	शुक्ल 11

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 11
तिथि समाप्ति काल _____ : 07:23:39
जन्म तिथि _____ : 12
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : उ०भाद्रपद
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 23:26:20 घंटे
जन्म योग _____ : उ०भाद्रपद
सूर्योदय कालीन योग _____ : हर्षण
योग समाप्ति काल _____ : 14:55:24 घंटे
जन्म योग _____ : हर्षण
सूर्योदय कालीन करण _____ : विष्टि
करण समाप्ति काल _____ : 07:23:39 घंटे
जन्म करण _____ : बव
भयात _____ : 25:31:18
भभोग _____ : 54:44:36
भोग्य दशा काल _____ : शनि 10 वर्ष 1 मा 29 दि

घात चक्र

मास _____ : फाल्गुन
तिथि _____ : 5-10-15
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : आश्लेषा
योग _____ : वज्र
करण _____ : चतुष्पाद
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : सिंह
सूर्य _____ : मिथुन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : कर्क
बुध _____ : कुम्भ
गुरु _____ : सिंह
शुक्र _____ : कन्या
शनि _____ : वृष
राहु _____ : तुला

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र


लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

श चं			
के			
गु ल			रा
शु मं	बु	सू	

लग्न कुण्डली

		श चं
		के
		गु ल
रा	सू	मं शु
		बु

विंशोत्तरी
शनि 10वर्ष 1मा 29दि
शनि

11/11/1997

11/01/2109

शनि	11/01/2008
बुध	10/01/2025
केतु	11/01/2032
शुक्र	11/01/2052
सूर्य	10/01/2058
चन्द्र	11/01/2068
मंगल	10/01/2075
राहु	10/01/2093
गुरु	11/01/2109

योगिनी
भद्रिका 2वर्ष 8मा 2दि
धान्या

15/07/2024

16/07/2027

धान्या	14/10/2024
भ्रामरी	13/02/2025
भद्रिका	15/07/2025
उल्का	14/01/2026
सिद्धा	15/08/2026
संकटा	15/04/2027
मंगला	16/05/2027
पिंगला	16/07/2027

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न		मक	14:04:49	405:44:16	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	गुरु	---
सूर्य		तुला	25:04:00	01:00:19	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	बुध	नीच राशि
चंद्र		मीन	09:32:01	14:36:42	उ०भाद्रपद	2	26	गुरु	शनि	शुक्र	सम राशि
मंगल		धनु	07:42:05	00:45:13	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	मित्र राशि
बुध		वृश्चि	11:21:20	01:27:22	अनुराधा	3	17	मंगल	शनि	चंद्र	सम राशि
गुरु		मक	20:07:53	00:06:22	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	केतु	नीच राशि
शुक्र		धनु	11:59:56	00:58:02	मूल	4	19	गुरु	केतु	बुध	सम राशि
शनि	व	मीन	20:46:51	00:03:27	रेवती	2	27	गुरु	बुध	शुक्र	सम राशि
राहु	व	सिंह	24:07:06	00:02:04	पू०फाल्गुनी	4	11	सूर्य	शुक्र	बुध	शत्रु राशि
केतु	व	कुंभ	24:07:06	00:02:04	पू०भाद्रपद	2	25	शनि	गुरु	बुध	शत्रु राशि
हर्ष		मक	11:14:19	00:01:24	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	मंगल	---
नेप		मक	03:39:35	00:01:05	उत्तराषाढ़ा	3	21	शनि	सूर्य	शनि	---
प्लूटो		वृश्चि	11:00:15	00:02:18	अनुराधा	3	17	मंगल	शनि	चंद्र	---
दशम भाव		तुला	27:17:27	--	विशाखा	--	16	शुक्र	गुरु	शुक्र	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:49:32


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मकर 01:16:56	मकर 14:04:49
2	कुम्भ 01:16:56	कुम्भ 18:29:02
3	मीन 05:41:08	मीन 22:53:15
4	मेष 10:05:21	मेष 27:17:27
5	वृष 10:05:21	वृष 22:53:15
6	मिथुन 05:41:08	मिथुन 18:29:02
7	कर्क 01:16:56	कर्क 14:04:49
8	सिंह 01:16:56	सिंह 18:29:02
9	कन्या 05:41:08	कन्या 22:53:15
10	तुला 10:05:21	तुला 27:17:27
11	वृश्चिक 10:05:21	वृश्चिक 22:53:15
12	धनु 05:41:08	धनु 18:29:02


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मकर	14:04:49
2	कुम्भ	22:06:22
3	मीन	27:44:15
4	मेष	27:17:27
5	वृष	22:29:44
6	मिथुन	16:44:56
7	कर्क	14:04:49
8	सिंह	22:06:22
9	कन्या	27:44:15
10	तुला	27:17:27
11	वृश्चिक	22:29:44
12	धनु	16:44:56


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा
अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद

चलित कुंडली



भाव कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शनि 10 वर्ष 1 मास 29 दिन

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
11/11/1997	11/01/2008	10/01/2025	11/01/2032	11/01/2052
11/01/2008	10/01/2025	11/01/2032	11/01/2052	10/01/2058
00/00/0000	बुध 08/06/2010	केतु 08/06/2025	शुक्र 12/05/2035	सूर्य 29/04/2052
00/00/0000	केतु 05/06/2011	शुक्र 08/08/2026	सूर्य 11/05/2036	चंद्र 29/10/2052
11/11/1997	शुक्र 05/04/2014	सूर्य 14/12/2026	चंद्र 10/01/2038	मंगल 06/03/2053
शुक्र 01/01/1999	सूर्य 10/02/2015	चंद्र 15/07/2027	मंगल 12/03/2039	राहु 28/01/2054
सूर्य 14/12/1999	चंद्र 11/07/2016	मंगल 11/12/2027	राहु 12/03/2042	गुरु 17/11/2054
चंद्र 14/07/2001	मंगल 08/07/2017	राहु 29/12/2028	गुरु 10/11/2044	शनि 30/10/2055
मंगल 23/08/2002	राहु 26/01/2020	गुरु 05/12/2029	शनि 11/01/2048	बुध 04/09/2056
राहु 29/06/2005	गुरु 03/05/2022	शनि 13/01/2031	बुध 10/11/2050	केतु 10/01/2057
गुरु 11/01/2008	शनि 10/01/2025	बुध 11/01/2032	केतु 11/01/2052	शुक्र 10/01/2058

चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष
10/01/2058	11/01/2068	10/01/2075	10/01/2093	11/01/2109
11/01/2068	10/01/2075	10/01/2093	11/01/2109	00/00/0000
चंद्र 10/11/2058	मंगल 08/06/2068	राहु 22/09/2077	गुरु 28/02/2095	शनि 15/01/2112
मंगल 11/06/2059	राहु 26/06/2069	गुरु 16/02/2080	शनि 10/09/2097	बुध 24/09/2114
राहु 10/12/2060	गुरु 02/06/2070	शनि 23/12/2082	बुध 17/12/2099	केतु 03/11/2115
गुरु 11/04/2062	शनि 12/07/2071	बुध 11/07/2085	केतु 23/11/2100	शुक्र 12/11/2117
शनि 11/11/2063	बुध 08/07/2072	केतु 30/07/2086	शुक्र 25/07/2103	00/00/0000
बुध 11/04/2065	केतु 04/12/2072	शुक्र 30/07/2089	सूर्य 12/05/2104	00/00/0000
केतु 10/11/2065	शुक्र 03/02/2074	सूर्य 23/06/2090	चंद्र 11/09/2105	00/00/0000
शुक्र 12/07/2067	सूर्य 11/06/2074	चंद्र 23/12/2091	मंगल 18/08/2106	00/00/0000
सूर्य 11/01/2068	चंद्र 10/01/2075	मंगल 10/01/2093	राहु 11/01/2109	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शनि 10 वर्ष 1 मा 21 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

केतु - शुक्र	केतु - सूर्य	केतु - चंद्र	केतु - मंगल	केतु - राहु
08/06/2025	08/08/2026	14/12/2026	15/07/2027	11/12/2027
08/08/2026	14/12/2026	15/07/2027	11/12/2027	29/12/2028
शुक्र 18/08/2025	सूर्य 14/08/2026	चंद्र 01/01/2027	मंगल 24/07/2027	राहु 07/02/2028
सूर्य 08/09/2025	चंद्र 25/08/2026	मंगल 13/01/2027	राहु 15/08/2027	गुरु 29/03/2028
चंद्र 14/10/2025	मंगल 02/09/2026	राहु 14/02/2027	गुरु 04/09/2027	शनि 29/05/2028
मंगल 08/11/2025	राहु 21/09/2026	गुरु 14/03/2027	शनि 28/09/2027	बुध 22/07/2028
राहु 11/01/2026	गुरु 08/10/2026	शनि 17/04/2027	बुध 19/10/2027	केतु 13/08/2028
गुरु 08/03/2026	शनि 28/10/2026	बुध 17/05/2027	केतु 27/10/2027	शुक्र 16/10/2028
शनि 15/05/2026	बुध 15/11/2026	केतु 30/05/2027	शुक्र 21/11/2027	सूर्य 04/11/2028
बुध 14/07/2026	केतु 23/11/2026	शुक्र 04/07/2027	सूर्य 29/11/2027	चंद्र 06/12/2028
केतु 08/08/2026	शुक्र 14/12/2026	सूर्य 15/07/2027	चंद्र 11/12/2027	मंगल 29/12/2028

केतु - गुरु	केतु - शनि	केतु - बुध	शुक्र - शुक्र	शुक्र - सूर्य
29/12/2028	05/12/2029	13/01/2031	11/01/2032	12/05/2035
05/12/2029	13/01/2031	11/01/2032	12/05/2035	11/05/2036
गुरु 12/02/2029	शनि 07/02/2030	बुध 06/03/2031	शुक्र 31/07/2032	सूर्य 30/05/2035
शनि 07/04/2029	बुध 05/04/2030	केतु 27/03/2031	सूर्य 30/09/2032	चंद्र 30/06/2035
बुध 25/05/2029	केतु 29/04/2030	शुक्र 26/05/2031	चंद्र 10/01/2033	मंगल 21/07/2035
केतु 14/06/2029	शुक्र 05/07/2030	सूर्य 13/06/2031	मंगल 22/03/2033	राहु 14/09/2035
शुक्र 10/08/2029	सूर्य 25/07/2030	चंद्र 13/07/2031	राहु 20/09/2033	गुरु 02/11/2035
सूर्य 27/08/2029	चंद्र 28/08/2030	मंगल 04/08/2031	गुरु 02/03/2034	शनि 29/12/2035
चंद्र 25/09/2029	मंगल 21/09/2030	राहु 27/09/2031	शनि 11/09/2034	बुध 19/02/2036
मंगल 14/10/2029	राहु 20/11/2030	गुरु 14/11/2031	बुध 02/03/2035	केतु 11/03/2036
राहु 05/12/2029	गुरु 13/01/2031	शनि 11/01/2032	केतु 12/05/2035	शुक्र 11/05/2036

शुक्र - चंद्र	शुक्र - मंगल	शुक्र - राहु	शुक्र - गुरु	शुक्र - शनि
11/05/2036	10/01/2038	12/03/2039	12/03/2042	10/11/2044
10/01/2038	12/03/2039	12/03/2042	10/11/2044	11/01/2048
चंद्र 01/07/2036	मंगल 04/02/2038	राहु 24/08/2039	गुरु 20/07/2042	शनि 12/05/2045
मंगल 06/08/2036	राहु 09/04/2038	गुरु 17/01/2040	शनि 21/12/2042	बुध 23/10/2045
राहु 05/11/2036	गुरु 05/06/2038	शनि 08/07/2040	बुध 08/05/2043	केतु 29/12/2045
गुरु 25/01/2037	शनि 11/08/2038	बुध 10/12/2040	केतु 04/07/2043	शुक्र 10/07/2046
शनि 01/05/2037	बुध 10/10/2038	केतु 12/02/2041	शुक्र 13/12/2043	सूर्य 06/09/2046
बुध 27/07/2037	केतु 04/11/2038	शुक्र 14/08/2041	सूर्य 31/01/2044	चंद्र 11/12/2046
केतु 31/08/2037	शुक्र 14/01/2039	सूर्य 08/10/2041	चंद्र 21/04/2044	मंगल 17/02/2047
शुक्र 11/12/2037	सूर्य 05/02/2039	चंद्र 07/01/2042	मंगल 17/06/2044	राहु 09/08/2047
सूर्य 10/01/2038	चंद्र 12/03/2039	मंगल 12/03/2042	राहु 10/11/2044	गुरु 11/01/2048

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	2
भाग्यांक	3
मित्र अंक	2, 7, 8, 3
शत्रु अंक	4, 5, 6
शुभ वर्ष	20,29,38,47,56
शुभ दिन	शुक्र, शनि, बुध
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, बुध
मित्र राशि	वृश्चिक, धनु
मित्र लग्न	मेष, कन्या, वृश्चिक
अनुकूल देवता	जगदम्बा
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	पन्ना
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	83%	पराक्रम, स्वास्थ्य, धन
हीरा	शुक्र	78%	कम खर्च, सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति
पन्ना	बुध	72%	धनार्जन, शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय
लहसुनिया	केतु	55%	धन, पराक्रम
मोती	चंद्र	44%	पराक्रम हानि, दाम्पत्य कष्ट
मूंगा	मंगल	41%	व्यय, ग्रह क्लेश, हानि
गोमेद	राहु	28%	दुर्घटना, व्यावसायिक हानि
पुखराज	गुरु	12%	रोग, व्यय, पराक्रम हानि
माणिक्य	सूर्य	6%	व्यावसायिक हानि, दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	11/01/2008	0%	19%	16%	78%	12%	84%	95%	41%	34%
बुध	10/01/2025	19%	19%	41%	84%	12%	84%	83%	28%	55%
केतु	11/01/2032	0%	19%	52%	72%	12%	84%	70%	3%	67%
शुक्र	11/01/2052	0%	19%	41%	78%	12%	91%	89%	41%	61%
सूर्य	10/01/2058	31%	53%	52%	72%	25%	66%	70%	3%	34%
चंद्र	11/01/2068	19%	59%	41%	78%	12%	78%	83%	3%	34%
मंगल	10/01/2075	19%	53%	58%	59%	25%	78%	83%	3%	61%
राहु	10/01/2093	0%	19%	16%	72%	12%	84%	89%	52%	34%
गुरु	11/01/2109	19%	53%	52%	59%	38%	66%	83%	28%	55%

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/11/1997-17/04/1998	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	17/04/1998-07/06/2000	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	23/07/2002-08/01/2003	07/04/2003-06/09/2004	13/01/2005-26/05/2005
अष्टम स्थानस्थ ढैया	15/11/2011-16/05/2012	04/08/2012-02/11/2014	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/04/2022-12/07/2022	17/01/2023-29/03/2025	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041	26/09/2041-11/12/2043	23/06/2044-30/08/2044
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	25/02/2052-14/05/2054	02/09/2054-05/02/2055	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062	07/03/2062-24/08/2063	06/02/2064-09/05/2064
अष्टम स्थानस्थ ढैया	04/11/2070-05/02/2073	31/03/2073-23/10/2073	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	12/04/2081-03/08/2081	07/01/2082-20/03/2084	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया

फल

शुभ
अशुभ
शुभ
शुभ
शुभ

क्षेत्र

पराक्रम
सुख हानि
शत्रु व रोग
व्यावसायिक उन्नति
धन

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म काल में मंगल की स्थिति जन्म कुण्डली में द्वादश भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपका मंगली दोष भंग हो रहा है। अतः यह मंगल आपको अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्रदान करेगा। इसके शुभ प्रभाव से आप शरीर से स्वस्थ रहेंगी तथा समय अधिक व्यय करने वाली महिला होंगी परन्तु आप अशुभ कार्यों की अपेक्षा शुभ कार्यों पर ही अधिक व्यय करेंगी। साथ ही अपने जीवन काल में समस्त भोग्य पदार्थों का आनन्द पूर्वक उपभोग करके प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करेंगी। आपके पति भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे परन्तु स्वभाव में यदा कदा क्रोधाधिक्य के भाव की प्रबलता रहेगी लेकिन इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप आवश्यक सुख संसाधनों से युक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगी।

यद्यपि यह मंगल आपके लिए शुभ फल दायक है। इसके प्रभाव से आपके विवाह में विलम्ब हो सकता है परन्तु वैवाहिक प्रक्रिया अत्यन्त ही शान्त एवं सुखद वातावरण में सम्पन्न होगी। किसी भी प्रकार से अनावश्यक समस्याएं या व्यवधान उत्पन्न नहीं होंगे। साथ ही विवाह के पश्चात आपका दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त समस्त प्रकार के भौतिक सुखों तथा सांसारिक भोग्य पदार्थों का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करेंगी। आपके शत्रु भी अल्प मात्रा में ही रहेंगे तथा इनसे आपको कोई असुविधा नहीं होगी।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल द्वादश भाव में स्थित है। अतः इसके शुभ प्रभाव से आप शुभ कार्यों पर ही अधिक व्यय करेंगी एवं समस्त भौतिक वस्तुओं का आप सुख पूर्वक उपभोग करने में सफल रहेंगी। साथ ही आपके शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य भी यथा समय सिद्ध होंगे। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। जिसके फलस्वरूप समाज में अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहेंगी। आप को भाई बहनों का सुख एवं वांछित

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

सहयोग भी जीवन में प्राप्त होता रहेगा। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आपके शत्रु हमेशा निर्बल रहेंगे। आपके विरोध करने की उनमें क्षमता नहीं रहेगी। साथ ही आप में रोगाभाव भी रहेगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भावी जीवन साथी के लिए शुभ रहेगी। इसके प्रभाव से उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में उग्रता रहेगी। इससे आपका दाम्पत्य प्रभावित नहीं होगा तथा आपके आपसी संबंध मधुर एवं प्रगाढ़ रहेंगे। अतः आपका दाम्पत्य जीवन अत्यन्त ही सुखपूर्वक व्यतीत होगा।

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी गैरमांगलिक या ऐसे मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिसका शास्त्रीय नियमानुसार मांगलिक दोष समाप्त हो रहा हो। यदि आप इस प्रकार से अपना दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करेंगी तो जीवन में सौभाग्य, धनैश्वर्य, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा युक्त होकर समाज में यश अर्जित करेंगी।

जन्म कुण्डली मिलान में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए तथा जिस युवक के द्वादश भाव में मंगल स्थित हो उसे यदि अत्यावश्यक न हो तो विवाह की उपेक्षा करनी चाहिए। शेष भावों में मिलान उत्तम रहेगा एवं इसके प्रभाव में वृद्धि होकर शुभ फल भी अधिक मात्रा में होंगे। इस प्रकार आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं शान्ति पूर्वक व्यतीत होगा तथा इसमें आपको किसी भी प्रकार से कष्ट या परेशानी नहीं रहेगी।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराऊंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

ग्रह फल

सूर्य

दशमभाव में सूर्य हो तो जातक-प्रतापी, व्यवसाय कुशल, राजमान्य लब्ध-प्रतिष्ठ, राजमन्त्री, उदार, ऐश्वर्य सम्पन्न एवं लोकमान्य होता है।

तुला राशि में रवि हो तो जातक मन्दाग्नि रोगी, आत्मबलहीन, मलीन व्यभिचारी, परदेशाभिलाषी, नैतिकता की कमी एवं दूसरों से दबने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य दशम भाव में स्थित है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं आयु भी पूर्ण रहेगी। धनैश्वर्य से वे सुसम्पन्न रहेंगे एवं जीवन में आपको पूर्ण रूप से आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसके साथ ही आपके आजीविका या व्यापार संबंधी कार्य भी उन्हीं की प्रेरणा एवं सहायता से सम्पन्न होंगे एवं आप इन कार्यों में वांछित सफलता अर्जित कर सकेंगी।

आप भी उनका पूर्ण हार्दिक सम्मान करेंगी एवं उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध प्रायः मधुर ही रहेंगे तथापि यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे। जीवन में आप पिता को अपनी ओर से पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी एवं सुख दुःख में सर्वदा उनका सहयोग करेंगी।

चन्द्र

तृतीय, भाव में चन्द्रमा हो तो जातक आस्तिक, तपस्वी, प्रसन्नचित्त, कफरोगी, मधुरभाषी प्रेमी, भाईयों और बहिनों का रक्षक, साहसी, विद्वान, एवं कंजूस होता है।

मीन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, धार्मिक, अतिकामी और प्रसन्न मुख वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति तृतीय भाव में विद्यमान है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट नहीं होगा। आपके प्रति उनके मन में विशेष स्नेह की भावना रहेगी तथा जीवन में सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको निश्चल भाव से सहयोग प्रदान करेंगी। इसके साथ ही आप में शक्ति, साहस एवं पराक्रम का भाव भी उन्हीं के प्रोत्साहन से जागृत होगा। साथ ही आपको सुन्दर भोजन कराने के लिए भी वे नित्य उत्सुक एवं तत्पर रहेंगी।

आप की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी बातों से सहमत होकर उनकी आज्ञा का पालन करेंगी। इसके साथ ही जीवन में सर्वप्रकार के तन, मन, धन से उनको सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगी अतः एक दूसरों के लिए आप शुभ एवं अनुकूल रहेंगी।

मंगल

बारहवें भाव में मंगल हो तो जातक नेत्ररोगी, स्त्रीनाशक, ऋणी, झगड़ालू, मूर्ख, व्ययशील एवं नीच प्रकृति का पापी होता है।

धनु राशि में मंगल हो तो जातक चतुर राजनैतिक नेता, कम सन्तान, लोकप्रिय प्रसिद्ध, उच्चप्रशासकीय पद प्राप्त करने वाला, कठोर, शठ, कूर, परिश्रमी एवं पराधीन होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य विशेष अच्छा नहीं रहेगा एवं समय समय पर शारीरिक दुर्बलता की अनुभूति करेंगे। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा तथा आपके प्रति उनके मन में सम्मान तथा स्नेह का भाव रहेगा। जीवन में उनसे आप पूर्ण रूप से आर्थिक तथा अन्य क्षेत्र में वांछित सहयोग प्राप्त करने में भी सफल रहेंगी। साथ ही सुख दुःख में भी आपको उनसे पूर्ण सहानुभूति तथा वांछित सहायता प्राप्त होगी।

आपके मन में भी उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा तथा आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों के कारण संबंधों में कटुता या तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी परन्तु यह कुछ समय तक रहेगी। इसके साथ ही आप सुख दुःख में उन्हें अपनी ओर से पूर्ण सहायता प्रदान करती रहेंगी।

बुध

ग्यारहवें भाव में बुध हो तो जातक ईमानदार, सुन्दर, पुत्रवान्, सरदार, गायनप्रिय, विद्वान्, प्रसिद्ध, धनवान्, सदाचारी, योगी, दीर्घायु, शत्रुनाशक एवं विचारवान् होता है।

वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक व्यसनी, दुराचारी, मूर्ख, ऋणी भिक्षुक, अनैतिक चरित्र, रतिक्रिया की अति करने वाला, गुप्तांगों के रोगों से पीड़ित, स्वार्थी एवं अपशब्द बोलने वाला होता है।

गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

मकर राशि में गुरु हो तो जातक प्रवासी, द्रव्यहीन, व्यर्थपरिश्रमी, चंचलचित्त, धूर्त, असभ्य आचरण, दुःखी एवं ईर्ष्यालु होता है।

शुक्र

बारहवें भाव में शुक्र होतो जातक धनवान्, परस्त्रीरत, बहुभोजी, शत्रुनाशक,

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मितव्ययी, आलसी, पतित, धातुविकारी, स्थूल एवं न्यायशील होता है।

धनु राशि में शुक हो तो जातक धनी, बलशाली, स्वोपार्जित द्रव्य द्वारा पुण्य करने वाला, विद्वान, सुन्दर, लोकमान्य, राज्यमान्य, सुखी घरेलू जीवन, उच्चपद की प्राप्ति एवं प्रभावशाली होता है।

शनि

तृतीय भाव में शनि हो तो जातक नीरोगी, विद्वान् योगी, मल्ल, शीघ्रकार्यकर्ता, सभाचतुर, चंचल, भाग्यवान्, शत्रुहन्ता, एवं विवेकी होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

राहु

अष्टम भाव में राहु हो तो जातक क्रोधी, व्यर्थभाषी, मूर्ख, उदररोगी, कामी, पुष्टदेही एवं गुप्तरोगी होता है।

सिंह राशि में राहु हो तो जातक चतुर, विचारक, सज्जन, नीति दक्ष एवं सत्पुरुष होता है।

केतु

द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक अस्वस्था, कटुवचन बोलने वाला, मुंह के रोग, राजभीरु एवं विद्रोही होता है।

कुम्भ राशि में केतु हो तो जातक दुःखी, कर्णरोगी, भ्रमणशील, व्ययशील एवं साधारण धनी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- केतु
(10/01/2025 - 11/01/2032)

केतु की महादशा 10/01/2025 को आरम्भ और 11/01/2032 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में केतु द्वितीय भाव में स्थित है। केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि है। इसके पूर्व आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी अवधि 17 वर्ष थी। बुध के कारण आपको लाभ, अच्छी शिक्षा, पारिवारिक सुख और सट्टे के कार्यों में लाभ हुआ होगा। केतु की इस दशा में आपको सुख तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप आपको संक्रामक बीमारी, विषाणु जाति बुखार, गले में संक्रामण, फोड़ा-फुन्सी, साँस सम्बन्धी बीमारियाँ आदि हो सकती हैं। थोड़ी सतर्कता से इनसे बचा जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपको विरासती सम्पत्ति अथवा अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। सट्टे से लाभ की सम्भावना भी है व्यवसाय-व्यापार में भी धनोपार्जन अच्छा होगा। जीविका के लिये कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, लेखन, गणित, विदेशी भाषा, दवा, वायु सेना, लेख-कार्य आदि का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़े, रत्न, चमड़े के सामान, कम्प्यूटर, लेखन-सामग्री, किताब, समाचार पत्र, घड़ी आदि का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लाभ, पदोन्नति तथा आय में वृद्धि होगी। आपको अधीनस्थ कर्मचारियों तथा सहायकों का सहयोग और वरिष्ठ कर्मचारियों की सदेख मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और उनकी आय अच्छी होगी। आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी तथा व्यापार का विस्तार और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

वाहन, यात्रा, जायदाद :

सूर्य की अन्तर्दशा के दौरान आपको जीवन का सारा सुख मिलेगा। आपकी जमीन-जायदाद तथा सम्पत्ति में वृद्धि होगी। सभी लेन-देन लाभदायक होंगे। आपको सुन्दर वाहन का सुख मिलेगा। बुध की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्राएं होंगी। मामूली नुकसान के प्रति सावधानी बरतें। मंगल की अन्तर्दशा में लम्बी यात्राओं की सम्भावना है जो लाभदायक होंगी।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप तेज और क्रियाशील हैं और सभी प्रतियोगिताओं तथा परीक्षाओं में अच्छा करेंगे। तकनीकी विषयों, कम्प्यूटर-प्रौद्योगिकी, लेखा-कार्य, भोजन प्रौद्योगिकी लेखन, गणित और बैंकिंग में आपकी रुचि होगी। आप बौद्धिक कार्यों में अच्छा करेंगे।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

परिवार :

परिवार के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपके बच्चे सफल और समृद्धिशाली होंगे और आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ परिवर्तन, अचानक लाभ और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। परिवार में अच्छे सम्बन्ध बनायें रखने के लिये आपको कौशल तथा धैर्य से काम लेना होगा। आपकी माता को सभी प्रकार का लाभ, वाहन सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी जबकि आपके पिता को विरोधियों पर विजय मिलेगी और कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्या होगी। आपके छोटे भाई-बहनों का कुछ व्यय होगा, उनकी यात्रा और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, तकनीकी शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सभी सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। शुक्र की अन्तर्दशा में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सम्पत्ति, सुख और सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य की अन्तर्दशा में वाहन और मकान की प्राप्ति होगी और जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी जबकि चंद्र की अन्तर्दशा के दौरान लोकप्रियता और भाई-बहनों से लाभ मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा में साझेदारों से लाभ, यात्रा और व्यय होगा जबकि राहु कुछ समस्या खड़ी कर सकता है। गुरु की अन्तर्दशा में कुछ स्वास्थ्य समस्या और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी जबकि शनि की अन्तर्दशा के दौरान जीवन-वृत्ति में सफलता और समृद्धि मिलेगी। बुध की अन्तर्दशा में अच्छी शिक्षा, सट्टे की गतिविधियों में सफलता और सुख मिलेगा।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

**अंतर्दशा :- केतु - शुक्र
(08/06/2025 - 08/08/2026)**

केतु महादशा में शुक्र अंतर्दशा की अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी ।

इस अवधि में आप भोग-विलास की सामग्री क्रय कर सकते हैं। द्वादश भाव में स्थित शुक्र भाग्यशाली समझा जाता है। अध्यात्म और दया-धर्म में रुचि होगी। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, या उन पर विजय होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दिया धन वापस आ जाएगा। किराये आदि से आमदनी बढ़ सकती है। मुकदमे में जीत होगी। स्पर्धा में सफल होंगे।

आपके जीवनसाथी का कार्यालय उत्तम होगा। आपके पिता का पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। माता धनी बनेंगी, उनकी यात्राएं होंगी, अध्यात्म में रुचि होगी। आपके भाई-बहनों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता, विभिन्न माध्यमों से लाभ का संकेत है।

आपकी संतान के जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। उनका धनार्जन उत्तम होगा, परिश्रम अधिक करना होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, विरासत या साझेदार के माध्यम से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो सहकर्मियों के माध्यम से लाभ होगा, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं को स्वयं के प्रयास से लाभ होगा। व्यापारियों को सहकर्मियों और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा।

नेत्रों का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। अरिष्ट से बचाव के लिए लक्ष्मीजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- केतु - सूर्य
(08/08/2026 - 14/12/2026)**

आपके लिए केतु महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन होगी जो आपके लिए 08/08/2026 को प्रारंभ होकर 14/12/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य पिता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्यक्षमता और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसिद्ध होंगे। स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। तीर्थयात्रा कर सकते हैं; अध्यात्म में रुचि होगी। नेकी के कार्य करेंगे। अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, वाहन सुख रहेगा, शिक्षा उत्तम होगी, बहुत से मित्र होंगे। विरासत में जायदाद मिल सकती है। घरेलू सुख रहेगा; माता से उत्तम संबंध रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता धनी बनेंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। माता को साझेदार के माध्यम से लाभ होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए अचानक लाभ, खर्च, यात्रा और शत्रुओं पर विजय का संकेत है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आपकी संतान के सम्मान में वृद्धि होगी, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, उच्चपद प्राप्त करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो साख में वृद्धि होगी। परामर्शदाता सफल रहेंगे। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- केतु - चन्द्र
(14/12/2026 - 15/07/2027)**

आपके लिए केतु महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चंद्रमा अंतर्दशा की अवधि 7 मास रहेगी जो आपके लिए 14/12/2026 से प्रारंभ होकर 15/07/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मन, भावनाओं और माता का कारक है।

इस अवधि में आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। माता से संबंध मधुर रहेंगे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धनी बनेंगे। पिता से लाभ हो सकता है। संतान सुखकारी होगी। दान-धर्म और अध्यात्म में मन लगेगा।

आपके जीवनसाथी की लंबी यात्राएं हो सकती हैं; वे भाग्यशाली और धनी रहेंगे। आपके पिता को साझेदारों से लाभ होगा, व्यापार में धनार्जन उत्तम होगा। माता के कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं।

आपके भाई-बहनों के लिए प्रसिद्धि, निवेश से लाभ, सुखी घरेलू जीवन, कला और खेलों में रुचि का संकेत है। आपकी संतान का ज्ञानार्जन उत्तम होगा, उनके बहुत मित्र होंगे, लोकप्रिय बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल रहेंगे, धनार्जन उत्तम होगा; उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं के स्पर्धी प्रबल हो सकते हैं। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए चांदी, दूध और जल का दान करें।

**अंतर्दशा :- केतु - मंगल
(15/07/2027 - 11/12/2027)**

आपके लिए केतु की महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी जो आपके लिए 15/07/2027 को प्रारंभ होकर 11/12/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं पर आप उनसे निबटने में सफल रहेंगे। आपकी रोगविरोधक क्षमता उत्तम रहेगी। माता पक्ष के लोगों से लाभ

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

हो सकता है। भाइयों से उत्तम संबंध होंगे, लघु यात्राएं हो सकती हैं। सब कार्यों में साहस और उत्साह का परिचय देंगे।

आपके जीवनसाथी को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, सब कार्य पूर्ण होंगे। माता भाग्यशाली रहेंगी; सफल और धनी बनेंगी। आपके छोटे भाई-बहनों को कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। बड़े भाई-बहनों की आय पर्याप्त होगी।

आपकी संतान के जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं, वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिए उन्हें परिश्रम करना होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो तबादला हो सकता है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो सहकर्मियों से लाभ होगा, प्रोन्नति हो सकती है। परामर्शदाताओं को परिश्रम करना होगा। व्यापारियों को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। कान और नेत्रों के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए लाल वस्त्र, मसूर की दाल दान में दें।

अंतर्दशा :- केतु - राहु (11/12/2027 - 29/12/2028)

आपके लिए केतु महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में राहु अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होगी जो आपके लिए 11/12/2027 को प्रारंभ होकर 29/12/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु दादा, अचानक घटने वाली घटना और भौतिक सुखों का कारक है।

इस अवधि में आपको विरासत, बीमा आदि से धनलाभ हो सकता है। जीवनसाथी या साझेदार के माध्यम से लाभ हो सकता है। तंत्र-मंत्र में रुचि हो सकती है। सब मामलों में सावधानी बरतना श्रेयस्कर रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, भौतिक सुखों की इच्छा पूर्ण होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा जो लाभकारी रहेगा। शिक्षा उत्तम होगी। पारिवारिक जीवन हर्षमय रहेगा।

आपके जीवनसाथी की आय बढ़ेगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आपके पिता की यात्राएं हो सकती हैं। माता धनी बनेंगी, उनका भाग्य चमकेगा। आपके भाई-बहनों के लिए स्पर्धियों पर सफलता, प्रसिद्धि और कार्यों में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान की नींव सुदृढ़ होगी; शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्न रहेंगे, उच्च पद मिलेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी। व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। मामूली व्याधियों को भी अनदेखा न

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

करें। गठिया आदि रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार के दिन शिवजी की भैरव रूप में उपासना करें।

**अंतर्दशा :- केतु - गुरु
(29/12/2028 - 05/12/2029)**

आपके लिए केतु महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 29/12/2028 को प्रारंभ होकर 05/12/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति ज्ञान, धन और संतान का कारक है।

इस अवधि में आप धनी और प्रसन्न होंगे। आय उत्तम होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। शिशु का जन्म हो सकता है। परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। विवाहित जीवन सुखी रहेगा। आप धनी बनेंगे, पिता से लाभकारी संबंध रहेंगे, दान-धर्म में रुचि लेंगे।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता की धर्म में रुचि होगी। माता सफल होंगी, धनी बनेंगी। आपके भाई-बहनों के लिए धन के संचय और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी, ज्ञानार्जन उत्तम होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी, सफल और भाग्यशाली होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी, धनी बनेंगे। व्यापारियों का धनार्जन उत्तम होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीली वस्तुएं, दाल, हल्दी या शहद दान में दें।

**अंतर्दशा :- केतु - शनि
(05/12/2029 - 13/01/2031)**

आपके लिए केतु महादशा 10/01/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 9 दिन होगी। यह अंतर्दशा 05/12/2029 को प्रारंभ होकर 13/01/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि भाग्य और सेवा का कारक है।

इस अवधि में आप परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। लेखन, संचार माध्यम के कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त समय है। लघु यात्राएं हो सकती हैं। निवेश से लाभ हो सकता है। संतानपक्ष से कुछ चिंता हो सकती है। ज्ञानार्जन उत्तम होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी।

आपके जीवनसाथी की लंबी यात्रा हो सकती है; उनके धन और सम्मान में वृद्धि

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382
9835195382

होगी। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। माता की यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ेंगे, धर्म में रुचि होगी। आपके भाई-बहनों के लिए सफलता, समृद्धि, व्यापार में लाभ का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो आय बढ़ेगी; उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए तेल, काले वस्त्र और काले जूते दान में दें।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382